

## प्रेस नोट दिनांक 04-02-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा तहसील इटवा पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनसुनवाई की गयी ।**

आज दिनांक 04-02-2023 को तहसील दिवस के अवसर पर तहसील इटवा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें संजीव रंजन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को समयबद्धता/गुणवत्ता के साथ निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए । इस दौरान उपजिलाधिकारी इटवा, क्षेत्राधिकारी इटवा हरीश चन्द्र व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

## प्रेस नोट दिनांक 04.02.2023 थाना मोहाना

**थाना मोहाना पुलिस द्वारा 09 बोरी खाद यूरिया व 02 अदद साईकिल को धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत कस्टम कार्यालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 04.02.2023 को बार्डर क्षेत्र में तस्करी किये जा रहे 09 बोरी खाद यूरिया व 02 अदद साईकिल को धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ कर कस्टम कार्यालय ककरहवा दाखिला किया गया ।

### **बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0 तरूण कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 अभय यादव चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 अंकित कुमार चौकी ककरहवा थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट दिनांक 04-02-2023

**महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 03 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 04-02-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 03 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 03 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह ,म0आ0 कौशल्या मद्धेशिया,म0आ0 नेहा सिंह, व म0आ0 प्रियम्बदा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।-

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. अरफुन्निशा पत्नी हफीजुर्रहमान साकिन घिमरौली थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. रूकसाना पत्नी रहमत अली साकिन भदवल थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. लिलि मिश्रा पत्नी चन्द्रकान्त साकिन चम्पापुर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

### प्रेस-नोट दिनांक 04.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.02.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के सिद्धार्थ नगर महोत्सव स्थल, बासी माघ मेला, बासी बस स्टैंड, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

### प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद में शांति एवं सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने व भविष्य किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में "बलवा ड्रिल" का किया गया पूर्वाभ्यास, शस्त्रों की साफ सफाई व हैण्डलिंग का भी दिया गया प्रशिक्षण ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने व किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से सिद्धार्थ, अपर पुलिस सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.02.2023 को रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में पुलिस टीम को दंगा/बलवा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया । पुलिस बल के कर्मियों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया व पुलिस बल को दंगाईयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके सिखाये गये । अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के विभिन्न तरीकों के साथ लाठी चार्ज/आँसू गैस के गोले और दंगाईयों पर रबर के गोले/एंटी राइट गन/रबर बुलेट गन / टीयर गैस गन / हैंड ग्रेनेड / मिर्ची बम आदि शस्त्रों को चला कर पूर्वाभ्यास किया गया साथ ही विभिन्न टीमों बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाये जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास कराया गया । इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक भूतनाथ गुप्ता व लाइन्स के अन्य अधि0/कर्म0गण मौजूद रहें ।

## प्रेस नोट:दिनांक 04.02.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 04.02.2023 को सड़क सुरक्षा माह के समापन पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम एवम ए0आर0टी0ओ0 द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम द्वारा अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 32 वाहनों से 31500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

## प्रेस नोट दिनांक 04.02.2023 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

**छेड़खानी के आरोपी अभियुक्त को थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**  
अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा ज्ञानेन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु के नेतृत्व में कपिलवस्तु पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.02.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2023 धारा 354 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को अन्दर 24 घण्टे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

01-महेन्द्र सैनी पुत्र चेतई उर्फ चेताराम सैनी निवासी ग्राम बर्डपुर नम्बर 08 टोला महदेइया थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

01. उ0नि0 सुग्रीव प्रसाद चन्द्रा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
02. का0 सोनू कुमार थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 04.02.2023

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपित को अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व ₹ 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 04-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना डेबरुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1208/2013 धारा 302 भा0द0वि0, वाद सं. 12/2014 से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गा उर्फ झगरु पुत्र सुन्दर यादव, हरिशचन्द्र यादव पुत्र सुन्दर यादव व अभियुक्ता सन्जू देवी पत्नी हरिशचन्द्र यादव निवासीगण बरगदवा थाना डेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण को माननीय न्यायाधीश कामेश शुक्ला, एएसजे/एफटीसी प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा आजीवन कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। दण्डित कराये जाने में एडीजीसी राजेश त्रिपाठी व न्यायालय पैरवीकार आ0 मो0 नसीम थाना डेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

## प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक- 04.02.2023

आगामी महाशिवरात्रि पर्व, सन्त रविदास जयन्ती, मो0 हजरत अली जन्म दिवस आदि के दृष्टिगत सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु समस्त थानों द्वारा दंगा नियन्त्रण ड्रिल व अपने-अपने थानाक्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 04.02.2023 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों द्वारा आगामी महाशिवरात्रि पर्व, सन्त रविदास जयन्ती, मो0 हजरत अली जन्म दिवस आदि के दृष्टिगत जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मय दंगा निरोधी उपकरण के साथ अपने-अपने थानाक्षेत्रों में दंगा नियंत्रण रिहर्सल ड्रिल/फुट पैट्रोलिंग किया गया।

**प्रेस नोट दिनांक 04.02.2023**

**जनपद के बांसी सर्किल क्षेत्र के थानोंक्षेत्रों में RAF व पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा पैदल गश्त किया गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ देवी गुलाम के नेतृत्व में आज दिनांक 04-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी सर्किल (शिवनगर डिड़ई, खेसरहा, बांसी जोगिया उदयपुर) क्षेत्रान्तर्गत आरएएफ (91 बटालियन बिजनौर) और स्थानीय पुलिस के जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया ।